



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अप्रैल, 2021
चैत्र 16, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 1302/छ:-पु०-9-21-20(10)(1)-04टी०सी०
लखनऊ, 6 अप्रैल, 2021

अधिसूचना
(शक्ति)

प०आ०-116

जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मजिस्ट्रीरियल ड्यूटी के प्रयोजनार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 26-3-2021 से 25-3-2022 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उन्हें ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकती हैं, जिनका वे वाराणसी नगर सीमा के भीतर ड्यूटी अवधि में प्रयोग कर सकेंगे :-

- 1-समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, नगर निगम, वाराणसी।
- 2-समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
- 3-समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
- 4-समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
- 5-समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी, मण्डल वाराणसी।
- 6-समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम, वाराणसी।
- 7-समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी।
- 8-समस्त उप निबन्धक, निबन्धन कार्यालय, वाराणसी।
- 9-जिला कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, वाराणसी।
- 10-क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी/सहायक निदेशक, सेवायोजन/समस्त सहायक सेवायोजन अधिकारी, वाराणसी।

- 11-सहायक निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी।
- 12-जिला पूर्ति अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, वाराणसी।
- 13-बन्दोस्त अधिकारी (चकबन्दी)/चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी, वाराणसी।
- 14-समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/समस्त आर0आई0, वाराणसी।
- 15-समस्त सहायक आयुक्त (एस0आई0बी0 सहित) वाणिज्य कर, वाराणसी।
- 16-समस्त वाणिज्य कर अधिकारी (एसआई0बी0 सहित), वाराणसी।
- 17-क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी, वाराणसी।
- 18-उप निदेशक, कृषि, वाराणसी।
- 19-जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी।
- 20-सहायक आयुक्त, मनोरंजन कर वाराणसी/समस्त मनोरंजन कर निरीक्षक, वाराणसी।
- 21-जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, वाराणसी।
- 22-उपायुक्त, उद्योग केन्द्र, वाराणसी।
- 23-उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, वाराणसी।
- 24-सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति/मण्डी निरीक्षक, वाराणसी।
- 25-सयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी/पर्यटन अधिकारी/सहायक पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
- 26-जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी।
- 27-उप निदेशक (मत्स्य) वाराणसी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाराणसी।
- 28-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, वाराणसी।
- 29-जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी।
- 30-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वाराणसी।
- 31-जिला प्रोबेशन अधिकारी, वाराणसी।
- 32-जिला क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी/उप क्रीडा अधिकारी, वाराणसी।
- 33-प्रधानाचार्य, राजकीय क्वीन्स कालेज/प्रधानाचार्य, राजकीय हाईस्कूल, वाराणसी।
- 34-प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करौंदी, वाराणसी।
- 35-सहायक विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण, वाराणसी।
- 36-जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी।
- 37-जिला युवा कल्याण अधिकारी, वाराणसी।
- 38-जिला भूमि संरक्षण अधिकारी/सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, वाराणसी।
- 39-जिला प्रशिक्षण अधिकारी, वाराणसी।
- 40-अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, वाराणसी।
- 41-अपर मुख्य अधिकारी/उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।
- 42-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, वाराणसी।
- 43-जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, वाराणसी।
- 44-प्रभागीय वनाधिकारी/क्षेत्रीय वनाधिकारी, वाराणसी।
- 45-अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा वाराणसी/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन निरीक्षक, वाराणसी।
- 46-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, वाराणसी।
- 47-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- 48-समस्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अर्थ एवं संख्या विभाग, वाराणसी।
- 49-समस्त सहायक अभियंता, अवर अभियंता, जल निगम, वाराणसी।
- 50-समस्त सहायक अभियंता, अवर अभियंता, जिला पंचायत, वाराणसी।

आज्ञा से,
भगवान स्वरूप,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1302/VI-P-9-19-20(10)(1)-04T.C., dated April 6, 2021:

No. 1302/VI-P-9-19-20(10)(1)-04T.C.

Dated Lucknow, April 6, 2021

IN exercise of the powers under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) for the purposes of magisterial duty in Sri Kashi Vishwanath Temple and Gyanwapi Masjid Campus, the Governor is pleased to appoint from March 26, 2021 to March 25, 2022, the following officers posted in District Varanasi of Uttar Pradesh as Executive Magistrates to be known as Special Executive Magistrates and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferable under the said code on Executive Magistrates, to be exercised during duty hours within the limits of the Varanasi town :-

1. All the Assistant Engineer/Junior Engineer, Municipal Corporation, Varanasi.
2. All the Assistant Engineer/Junior Engineer, Development Authority, Varanasi.
3. All the Assistant Engineer/Junior Engineer, Irrigation Department, Varanasi.
4. All the Assistant Engineer/Junior Engineer, P.W.D., Varanasi..
5. All the Assistant Engineer/Junior Engineer, Purvanchal vidyut Vitran Nigam, Varanasi Division, Varanasi.
6. All the Assistant Engineer/Junior Engineer, U.P. Social Welfare Construction Corporation, Varanasi.
7. All the Assistant Engineer/Junior Engineer, R.E.S., Varanasi.
8. All the Deputy Registrar, Registration Office, Varanasi.
9. District Program Officer Varanasi/Child Development Project Officer, Varanasi.
10. Regional Employment officer/Assistant Director Employment/All the Assistant Employment Officer, Varanasi.
11. Assistant Director, State Hindi Institute, Varanasi.
12. Regional Food officer/Assistant Regional Food Officer, Varanasi.
13. Settlement Officer/Consolidation Officer/ Assistant Consolidation Officer, Varanasi.
14. All the Assistant Regional Transport Officer/All R.I., Varanasi.
15. All the Assistant Commissioner/With S.I.B, Trade Tax, Varanasi.
16. All the Trade Tax Officer/ With S.I.B, Varanasi.
17. Regional alcohol prohibition Officer/ Varanasi.
18. Deputy Director, Agriculture, Varanasi.
19. District Agriculture Officer, Varanasi.
20. Assistant Commissioner, Entertainment Tax/All Entertainment Inspector, Varanasi.
21. District Excise Officer/Excise Inspector, Varanasi.
22. Deputy Commissioner of Industries Varanasi.
23. Deputy Controller, Civil Defence, Varanasi.
24. Secretary, Agriculture Production Mandi Committee/Mandi Inspector.
25. Regional Tourism Officer/Tourism Officer/Assistant Tourism Officer, Varanasi.
26. District Horticulture Officer, Varanasi.
27. Deputy Director (Fishery) Varanasi/Chief Executive Officer, Varanasi.
28. District Handicap Welfare Officer, Varanasi.
29. District Social Welfare Officer, Varanasi.
30. District Minority Welfare Officer, Varanasi.
31. District Probation Officer, Varanasi.
32. District Regional Sports Officer/Deputy Sports Officer, Varanasi.
33. Principal, Government Quins College/Principal, Government High School, Varanasi.

34. Principal, Government Industrial Training Institute, Karaundi, Varanasi.
35. Assistant Science Officer, U.P. POLLution Control, Varanasi.
36. District Cane Officer, Varanasi.
37. District Yuth Officer, Varanasi.
38. District Soil Conservation Officer/Assistant Soil Conservation Officer, Varanasi.
39. District Training Officer, Varanasi.
40. Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Varanasi.
41. Additional Chief Officer/Deputy Secretary Middle Education Board, Regional Office, Varanasi.
42. District Backboard Welfare Officer Varanasi.
43. Zila Khadi Gram Udhhyog Officer, Varanasi.
44. Divisional Forest Officer/Regional Forest Officer Varanasi.
45. Abandoned Officer Food Security Varanasi/Food Safety and Drug Administration Inspector, Varanasi.
46. All B.D.O.'s Varanasi.
47. District Basic Siksha Adhikari/Khand Siksha Adhikari, Varanasi.
48. All Assistant Statistics Officer, Arth and Sankhya Vibhag, Varanasi.
49. All Assistant Engineer, Junior Engineer, Jal Nigam, Varanasi.
50. All Assistant Engineer, Junior Engineer, District Panchayat, Varanasi.

By order,
BHAGWAN SWARUP,
Sachiv.